



HI

फिंगरप्रिंट और यूरोडैक (Eurodac)

एक सदस्य राष्ट्र में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे तीसरे राष्ट्र के नागरिकों अथवा राष्ट्रहीन व्यक्तियों के लिए प्रावधान (ईयू) संख्या 603/2013 के अनुच्छेद 29(3) के अनुसरण में जानकारी

यदि आप डबलिन राज्य में गैर-कानूनी ढंग से ठहरे हुए हैं¹⁾, तो अधिकारी आपके फिंगरप्रिंट ले सकते हैं और उन्हें 'यूरोडैक (Eurodac)' फिंगरप्रिंट डेटाबेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि आपने शरण के लिए आवेदन किया है अथवा नहीं। आपके फिंगरप्रिंट डेटा को यूरोडैक के डेटाबेस में भंडारित नहीं किया जाएगा परंतु, यदि आपने पहले से ही किसी अन्य देश में शरण के लिए आवेदन कर दिया है, आपको उस देश में वापस भेजा जा सकता है।

यदि आपके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता खराब है जिसकी वजह, अन्य चीजों के अलावा यह है कि आपने जानबूझकर अपनी उंगलियों को नुकसान पहुंचाया, तो आपके फिंगरप्रिंट दोबारा लिए जाएंगे।

यूरोडैक का संचालन यूरोपीय संघ की एक एजेंसी ईयू-लीसा (eu-LISA) करती है। आपके डेटा का इस्तेमाल केवल कानून द्वारा नियत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। आपके डेटा को केवल यूरोडैक सेंट्रल सिस्टम प्राप्त करता है। यदि भविष्य में आप किसी अन्य डबलिन राष्ट्र में शरण आवेदन करते हैं, तो यूरोडैक को भेजने के लिए भी आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। यूरोडैक में भंडारित किए गए डेटा का आदान-प्रदान डबलिन राष्ट्रों से संबंध नहीं रखने वाले अन्य राष्ट्रों अथवा संगठनों से नहीं किया जाएगा।

- 1) संपूर्ण यूरोपीय संघ (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम) और डबलिन प्रावधान के चार 'संबद्ध' राष्ट्रों (नॉर्वे, आइसलैंड, स्विटज़रलैंड और लीखटेनस्टाइन) के लिए।

© यूरोपीय संघ 2014

पुनरुत्पादन की अनुमति है। अलग-अलग चित्रों के उपयोग अथवा प्रतिलिपि की अनुमति सौधे कॉपीराइट रखने वाले से प्राप्त करनी होगी।

संपर्क जानकारी

शरणार्थी प्राधिकरण का पता और विवरण

Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF)
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg
टेली.: +49 (0)911 943 0
फ़ैक्स: +49 (0)911 943 10000
ईमेल: service@bamf.bund.de

यूरोडैक जांचकर्ता का पता और विवरण

Bundeskriminalamt (BKA)
65173 Wiesbaden
टेली.: +49 (0)611 55 0
फ़ैक्स: +49 (0)611 55 12141
www.bka.de

यदि हमारे अधिकारियों को शक है कि आपने अन्य राष्ट्र में आव्रजन के लिए आवेदन किया हुआ है और उस आवेदन के लिए अन्य राष्ट्र जिम्मेदार हो सकता है, तो वे आपको तदोपरांत प्रक्रिया के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे और इससे आप और आपके अधिकार कैसे प्रभावित होंगे।

